

Roaf Name - Sihe Middle School to passgung
(MMSYSC)
Shedule XLV Form No. 134. Bakour

Supard

DIVISION

Supard

SUB-DIVISION

M BND-1548

Measurement Book

Agency - Bal Krishan Yeafar

प्रमाणित किया जाता है कि इस मापी
पुस्तिका में कुल - 100 (एक सौ) मजदूर
एक प्रमाणित पृष्ठ हैं जो श्री रण विजय
कुमार, सहायक अभियंता, वामीन कार्य
विभाग, कार्य अवर, पमंडल, सुपौल के नाम
से निर्गत किया जाता है।

25/4/22
Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Supaul
25/4/22

Sch. XLV - Form No. 134

Supaul DIVISION

Supaul SUB-DIVISION

Measurement Book

No. **1548**

Name of Officer _____

Date of first entry _____

1st on A/c Bill

1

Name of Work—

Situation of Work—

Agency by which work is executed—

Date of Measurement—

No. and date of agreement

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurement relating to each work)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of work — Construction of road from Sihe middle School to Parsanna bazar under masonry.					
Agency — Balkrishnan Yadav.					
Agreement No —					
Agreement value —					
Date of Start —					
Date of Completion —					
1) Providing & fixing of walking bench mark — as per E.I.T					
$8.00 \times 0.420 \text{ m} = 3.36 \text{ m}^2$ Qty — 0.420 m					
2) Clearing & grubbing of road — as per E.I.T					
$5 \times 30.0 \text{ m} \times 3.50 \text{ m} = 525.0 \text{ m}^2$					
$7 \times 30.0 \text{ m} \times 3.50 \text{ m} = 735.0 \text{ m}^2$					
$2.3 \times 30.0 \text{ m} \times 3.30 \text{ m} = 227.7 \text{ m}^2$ 198.00 396.00 m ²					
$2.1 \times 30.0 \text{ m} \times 3.30 \text{ m} = 660 \text{ m}^2$ 1458 m ² Qty = 1722.0 m = 0.1458 Hek 0.1458 Hek					

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Measure taken					
date —					
1.) Providing, laying, Spreading & Compacting — as per spec					
5x 30.0 m x 3.75 m x 0.075 =					42.1875
3x 30.0 m x 3.75 m x 0.075 =					25.3125
6x 30.0 m x 3.75 m x 0.075 =					50.625
					$\Sigma = 118.125$
2.) Cont. of sub-grade & fallen					
Shoulder — as per spec					
Qty of (sub) base — 2x 7x 30.0 m x 1.20 x 0.275 =					138.60
2x 8x 30.0 m x 1.20 x 0.275 =					138.60
					$\Sigma = 277.20$
50.125					
<u>ABSTRACT OF COST</u>					
1.) Setting out- pillars —					
Qty-400 Nos vide TMB Part (1)					
@Rs-2449.70/1000 — Rs —					9798.80
2.) Clearing & grubbing of road (road) —					
as per spec					
Qty- 0.1584 hect vide TMB Part (1)					
@Rs 49496.70/hect — Rs —					7216.62
3.) E/W in excavation for foundn of structure —					
as per spec					
Qty- 29.798 m ³ vide TMB Part (2)					
@Rs-240.59/m ³ — Rs —					7165.06
					$\Sigma = 24780.48$

17
срещ
24.10.23

Q4 - E/W - $608.45 \text{ m}^2 @ 23.78/\text{m}^2$

Agreable Model - (53 to 24.5) mm - $Q_n = 103.644 \text{ N}$